



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 26 जुलाई, 2023

श्रावण 4, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 1075/ग्यारह-2-23-9(47)-17-टी0सी0-224-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (278)-2023

लखनऊ, 26 जुलाई, 2023

अधिसूचना

प0आ0-422

उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 9 की उपधारा (1), उपधारा (3) और उपधारा (4), धारा 11 की उपधारा (1), धारा 15 की उपधारा (5), धारा 16 की उपधारा (1) और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक हो परिषद् की संस्तुतियों पर, एतद्वारा, अधिसूचना संख्या क0नि0-2-842/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(9)-2017, दिनांक 30 जून, 2017 में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) सारणी में,-

(i) क्रम संख्या 3 के समक्ष, स्तम्भ (3) में मद (iड) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-

“स्पष्टीकरण-यह मद सारणी के क्रम संख्या 3 के समक्ष मद (iv), (v) और (vi) के उप मदों को निर्दिष्ट करता है जो अधिसूचना संख्या 620/ग्यारह-2-22-9(47)-17-टी0सी-188-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(238)-2022, दिनांक 18 जुलाई, 2022 द्वारा उनके निरस्त होने से पूर्व अधिसूचना में विद्यमान थे।”;

(ii) क्रम संख्या 9 के समक्ष, स्तम्भ (3) में, मद (iii) में, उप-मद (ख) में, स्तम्भ (5) के अधीन प्रविष्टियों में, शर्त (2) में,-

(क) शब्द, अंक और अक्षर "पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के 15 मार्च को या पहले" के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर "पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के पहली जनवरी को या उसके पश्चात् किन्तु पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक" रख दिये जायेंगे;

(ख) चौथे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात:-

"परन्तु यह भी कि जीटीए द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान पूर्ति की गई सेवाओं पर जीएसटी का भुगतान करने के लिए प्रयोग किया गया विकल्प अगले और भविष्य के वित्तीय वर्षों के लिए प्रयोग किया गया समझा जाएगा जब तक कि जीटीए अनुलग्नक VI में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अधीन वापसी के लिए पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की 1 जनवरी को या उसके पश्चात् किन्तु पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक घोषणा दाखिल नहीं करता है।";

(iii) क्रम संख्या 24 के समक्ष, स्तम्भ (3) में मद (i) में, स्पष्टीकरण में, खंड (i) में उप-खण्ड (ज) को निकाल दिया जाएगा।

(ख) अनुलग्नक v में,

(i) पैरा 2 में, शब्द "वित्तीय वर्ष का अंत जिसके लिए यह प्रयोग किया जाता है" के स्थान पर, शब्द और अंक "वित्तीय वर्ष का आरम्भ जिसके लिए मैं नियत दिनांक को या से पहले अनुलग्नक VI दाखिल करके रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अधीन वापसी करने का विकल्प प्रयुक्त करता हूँ", रख दिये जायेंगे;

(ii) अनुलग्नक के नोट में, अंक, अक्षर और शब्द "किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए उपरोक्त विकल्प का प्रयोग करने की अंतिम तिथि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की 15 मार्च है" के स्थान पर, अंक, अक्षर और शब्द "किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए उपरोक्त विकल्प का प्रयोग पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की 1 जनवरी को या उसके पश्चात् किन्तु पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक किया जाएगा" रख दिये जायेंगे;

(ग) अनुलग्नक v के पश्चात् निम्नलिखित अनुलग्नक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात:-

#### "अनुलग्नक VI

##### प्रपत्र

किसी वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने से पूर्व दाखिल किये गये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अधीन वापस करने का आशयित माल परिवहन अभिकरण द्वारा विकल्प का प्रयोग करने के लिए अधिकारिता वाले जीएसटी प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए प्रपत्र।

संदर्भ संख्या-

दिनांक:-

1-मैं/हम------(व्यक्ति का नाम), मैसर्स -----का प्राधिकृत प्रतिनिधि वित्तीय वर्ष-----के दौरान अनुलग्नक v दिनांक-----) को भरकर, हमारे द्वारा पूर्ति किए गए माल के परिवहन के संबंध में जीटीए की सेवाओं पर जीएसटी का भुगतान करने के विकल्प का प्रयोग किया था।;

2-मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं वित्तीय वर्ष के लिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर वापस लौटना चाहता हूँ-----;

3-मैं समझता हूँ कि एक बार इस विकल्प का प्रयोग करने पर विकल्प का प्रयोग करने के दिनांक से इसे एक वर्ष की अवधि के भीतर परिवर्तित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और यह उस वित्तीय वर्ष के अंत तक विधिमाम्य रहेगा जिसके लिए इसे प्रयोग किया गया है।

विधिक नाम:-

जीएसटीआईएन:-

पैन नंबर

प्राधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:

जीटीए का पूरा पता:

(अधिकारिता वाले जीएसटी प्राधिकरण की दिनांकित पावती)

**नोट:** किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए उपरोक्त विकल्प का प्रयोग पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की 1 जनवरी को या उसके पश्चात् किन्तु पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक किया जाएगा।

2-यह अधिसूचना दिनांक 27 जुलाई, 2023 से प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,  
नितिन रमेश गोकर्ण,  
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 1075 / XI-2-23-9(47)-17-T.C.-224-U.P.Act-1-2017-Order (278)-2023, dated July 26, 2023 :

No. 1075 / XI-2-23-9(47)-17-T.C.-224-U.P.Act-1-2017-Order (278)-2023

*Dated Lucknow, July 26, 2023*

IN exercise of the powers conferred by sub-section (1), sub-section (3) and sub-section (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017), the Governor, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification no. KA.NI.-2-842/XI-9(47)-17-U.P. Act-1-2017-Order (9)-2017, dated June 30, 2017, namely :-

In the said notification,-

(A) in the Table,-

(i) against serial number 3, in Column (3), in item (ie), following explanation shall be *inserted*, namely :-

“*Explanation*-This item refers to sub-item of the item (iv), (v) and (vi), against serial number 3 of the Table as they existed in the notification prior to their omission *vide* notification no. 620/XI-2-22-9(47)-17-T.C.-188-U.P.Act-1-2017-Order-(238)-2022, dated July 18, 2022.”;

(ii) against Sl. no. 9, in Column (3), in item (iii), in sub-item (b), in the entries under Column (5), in condition (2) :-

(a) for the words, figures and letters “on or before the 15<sup>th</sup> March of the preceding Financial Year”, the words, figures and letters “on or after the 1<sup>st</sup> January of the preceding Financial Year but not later than 31<sup>st</sup> March of the preceding Financial Year” shall be *substituted*;

(b) after the fourth proviso, the following proviso shall be *inserted*, namely:-

“Provided also that the option exercised by GTA to itself pay GST on the services supplied by it during a Financial Year shall be deemed to have been exercised for the next and future financial years unless the GTA files a declaration in Annexure VI to revert under reverse charge mechanism on or after the 1<sup>st</sup> January of the preceding Financial Year but not later than 31<sup>st</sup> March of the preceding Financial Year.”;

(iii) against serial number 24, in column (3), in item (i), in the *Explanation*, in clause (i), sub-clause (h) shall be *omitted*.

(B) in Annexure V,

(i) in para 2, for the words “end of the financial year for which it is exercised”, the words and figures “the start of the financial year for which I exercise option to revert under reverse charge mechanism by filing Annexure VI on or before the due date” shall be *substituted*;

(ii) in note to Annexure, for the words, figures and letters “The last date for exercising the above option for any financial year is the 15<sup>th</sup> March of the preceding financial year”, the words, figures and letters “The above option for any Financial Year shall be exercised on or after 1<sup>st</sup> January of the preceding Financial Year but not later than 31<sup>st</sup> March of the preceding Financial Year” shall be *substituted*;

(C) after Annexure V, the following Annexure shall be *inserted*, namely:-

“Annexure VI

#### FORM

Form for exercising option by a Goods Transport Agency intending to revert under reverse charge mechanism to be filed before the commencement of any financial year to be submitted before the jurisdictional GST Authority.

Reference no.-

Date:-

1. I/We -----(name of Person), authorized representative of M/s -----had exercised option to pay GST on the services of GTA in relation to transportation of goods supplied by us during, the financial year -----under forward charge by filling Annexure V on -----;
2. I hereby declare that I want to revert to reverse charge mechanism for Financial Year-----;
3. I understand that this option once exercised shall not be allowed to be changed within a period of one year from the date of exercising the option and will remain valid till the end of the financial year for which it is exercised.

Legal Name:-

GSTIN

PAN No.

Signature of Authorized representative:

Name of Authorized Signatory:

Full Address of GTA:

(Dated Acknowledgment of jurisdictional GST Authority)

**Note:** The above option for any Financial Year shall be exercised on or after 1<sup>st</sup> January of the preceding Financial Year but not later than 31<sup>st</sup> March of the preceding Financial Year”.

2. This notification shall come into force with effect from 27<sup>th</sup> July, 2023.

By order,  
NITIN RAMESH GOKARN,  
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 465 राजपत्र-2023-(1513)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 11 सा० राज्य कर-2023-(1514)-1000 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।